



RANA SUGARS LIMITED

REGD. OFFICE: SCO 49-50, SECTOR 8-C, MADHYA MARG CHANDIGARH- 160 009 (INDIA)
CIN: L15322CH1991PLC011537, Website: www.ranasugars.com, E-mail: info@ranagroup.com
TEL.: 0172-2540007, 2549217, 2541904, 2779565, 2773422, FAX: 0172-2546809

RSL/24-25/CS

November 16, 2024

To,

Department of Corporate Services (DCS)
The BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001.

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai- 400051.

Ref: Scrip Code: 507490,

Company Symbol: RANASUG

Sub: Newspaper Advertisement for Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter (Q2) and Half Year ended 30th September 2024.

Ref: Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement for the Un-Audited Standalone Financial Results of the Company for the Quarter (Q2) and Half Year ended 30th September, 2024 published in the following newspapers:

1. Business Standard (English) all editions – 15th November 2024
2. Business Standard (Hindi) Chandigarh edition - 15th November 2024

You are requested to kindly take the above on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,

For RANA SUGARS LIMITED

MADHUR BAIN SINGH

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

GP WIND (JANGI) PRIVATE LIMITED

[Regulation 52(8) read with Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

Regd Office:- S2, Lakshmi Nilayam, H.No.326, Begumpeta, 6-3-1186/A/8, Hyderabad-500016, Telangana.
CIN: U40300TG2010PTC070416

Sl No	Particulars	(Rs. In Lakhs)		
		Quarter ended 30-09-2024	Quarter ended 30-09-2023	Previous Year ended 31-12-2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
01	Total Income from Operations	1,856	1,690	6,242
02	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	778	693	1,968
03	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	778	693	1,358
04	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	580	238	871
05	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	580	239	871
06	Paid up Equity Share Capital	25,168	25,168	25,168
07	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(2,477)	(3,339)	(3,901)
08	Securities Premium Account	-	-	-
09	Net worth	22,691	21,829	21,267
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt*	17,379	19,626	19,640
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	0.78	0.91	0.96
13	Earning Per Share (of Rs 10/- each) - (Basic & Diluted)	0.23	0.09	0.35
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debt Redemption Reserve	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	1.35	1.44	1.29
17	Interest Service Coverage Ratio	3.54	3.09	2.66

* Outstanding Debentures

Notes:
1. The above Financial results have been approved by the Board of Directors at their meeting held on November 14, 2024.
2. The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 ("Act") read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
3. The above is an extract of the detailed format of Annual results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the Annual results is available on the website of the NSE Limited (URL: <https://www.nseindia.com>) and the same is also available on Company's website (URL: <https://gpwindjangi.in>)
4. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited and can be accessed on the web site of NSE.

By Order of the board
For GP Wind (Jangi) Private Limited
Sd/-

(S Sundar Rajan)
Wholtime Director & CFO
DIN: 03594693

Place: Hyderabad
Date : November 14, 2024

JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED

Redg Office: Triokpur Road, Kheri (Kala-amb), Tehsil-Nahan, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh - 173030, INDIA
CIN-L74110HP2004PLC027558

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results For The Quarter and Half Year Ended 30th September, 2024

Particulars	(Rs in lacs)					
	Quarter Ended 30 th September 2024	Quarter Ended 30 th June 2024	Quarter Ended 30 th September 2023	Half Year Ended 30 th September 2024	Half Year Ended 30 th September 2023	Year Ended 31 st March 2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	2054.16	2480.39	1912.55	4534.55	3543.54	7,511.26
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional item and/or extraordinary items)	(207.31)	19.90	(99.38)	(187.41)	(415.77)	(342.86)
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and/or extraordinary items)	(207.31)	19.90	(99.38)	(187.41)	(415.77)	(342.86)
Net Profit / (Loss) for the period (after tax exceptional and/or extraordinary items)	(1,031.93)	(62.91)	(72.98)	(1,094.84)	(331.83)	(405.77)
Total comprehensive income for the period	(1,030.76)	(61.75)	(68.01)	(1,092.51)	(318.18)	(401.12)
Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	8,560.40	7,839.68	7,839.68	8,560.40	7,839.68	7,839.68
Earnings per equity share (of Rs 10 each)						
(a) Basic (Rs)	(1.24)	(0.08)	(0.09)	(1.36)	(0.42)	(0.52)
(b) Diluted (Rs)	(1.24)	(0.08)	(0.09)	(1.36)	(0.42)	(0.52)

Key numbers of Standalone Financial Results

Particulars	(Rs in lacs)					
	Quarter Ended 30 th September 2024	Quarter Ended 30 th June 2024	Quarter Ended 30 th September 2023	Half Year Ended 30 th September 2024	Half Year Ended 30 th September 2023	Year Ended 31 st March 2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	2054.16	2480.39	1912.55	4534.55	3543.54	7,511.26
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities but before tax)	(207.19)	20.01	(99.33)	(187.18)	(415.61)	(342.15)
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities and tax)	(1,031.81)	(62.80)	(72.93)	(1,094.61)	(331.67)	(405.06)
Total comprehensive income for the period	(1,030.64)	(61.64)	(67.96)	(1,092.28)	(318.02)	(400.41)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2024 as reviewed by Audit Committee and approved by Board in its meeting dated November 13, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full format of the Financial Results for the quarter and half year ended 30th September 2024 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on Company's website at www.svendgaard.com

For and behalf of
JHS Svendgaard Laboratories Limited
Sd/-
NIKHIL NANDA
Managing Director
DIN 00051501

Date : November 13, 2024
Place : New Delhi

Government of Kerala
Published Tenders from 11-11-2024 to 13-11-2024
Directorate of Animal Husbandry

Tender ID: 2024 DAH 705344 1 * Chief Disease Investigation Officer * General Consumables 2024 * Closing Date: 02-Dec-2024 * PAC: Rs600000

Visit: <https://etenders.kerala.gov.in> for more details.
Ru.No:11-13/Nov/2024/PRD/096

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall Patiala- 147001
Corporate Identity No. U40109PB2010SGC033813, Website : www.pspcl.in
(Contact number 9646117606)

E-Tender Enquiry No: 116/MM-I/BMC-336(B)/O&M/GHTP/2024

dated 14.11.24

Dy. Chief Engineer, Mechanical Mtc. Circle-I/GHTP, Lehra Mohabbat invites E-tender for Capital/Major overhauling of Valves & Piping, Coal Piping, Ducts, Dampers & Gates, Expansion Joints and LDO/HFO Pumps (210 MW, OEM-BHEL) at GHTP, Lehra Mohabbat on Lump sum rates. For detailed NIT & tender specification please refer to <https://eproc.punjab.gov.in> from 14/11/2024 from 05:00 PM onwards.
Note: Corrigendum & addendum, if any will be published online at <https://eproc.punjab.gov.in>

76155/12/3638/2023/39064 GHTP-94/24

SBI

Platform Engineering-II, Global IT Centre, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614

CORRIGENDUM - II

RFP No.: SBI/GITC/Platform Engineering-II/2024/2025/1216 dated: 11.10.2024

State Bank of India has floated an open RFP for procurement of outgoing domestic and international SMS, receiving incoming SMS, missed call, WhatsApp banking messaging and RCS push messages and services. Corrigendum-II has been published. Please see the "Procurement News" at Bank's site <https://bank.sbi>.

Place: Navi Mumbai Sd/-
Date: 15.11.2024 Deputy General Manager (PE - II)

**GOVERNMENT OF TAMIL NADU
FINANCE DEPARTMENT,
CHENNAI-9**

Auction of 10 Tamil Nadu Government Stock (Securities)

- Government of Tamil Nadu has offered to sell by auction the dated securities for an amount of **Rs.2000 crore** with **Ten year** tenure. Securities will be issued for a minimum nominal amount of Rs.10,000/- and multiples of Rs.10,000/- thereafter. Auction which will be **yield** based under multiple price format will be conducted by Reserve Bank of India at Mumbai Office (Fort) on **November 19, 2024**.
- The Government Stock up to 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of its notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure II). Under the scheme, an investor can submit a single bid only through a bank or a Primary Dealer.
- Interested persons may submit bids in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on **November 19, 2024**.
 - The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between **10.30 A.M. and 11.30 A.M.**
 - The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between **10.30 A.M. and 11.00 A.M.**
- The yield percent per annum expected by the bidder should be expressed up to two decimal points. An investor can submit more than one competitive bid at different rates in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System. However, the aggregate amount of bids submitted by a person should not exceed the notified amount.
- The result of auction will be displayed by Reserve Bank of India on its website on **November 19, 2024**. Successful bidders should deposit the price amount of Stock covered by their bids by means of a Bankers' Cheque or Demand Draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) or Chennai on **November 21, 2024** before the close of banking hours.
- The Government Stock will bear interest at the rate determined by Reserve Bank of India at the auction and interest will be paid half yearly on **May 21** and **November 21**. The Stock will be governed by the provisions of the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007.
- The stocks will qualify for ready forward facility.
- For other details please see the notifications of Government of Tamil Nadu Specific Notification No **753(L)/W&M-II/2024** dated **November 13, 2024**.

T.Udhayachandran
Principal Secretary to Government,
Finance Department, Chennai-9.
DIPR/ 1149 /DISPLAY/2024

RANA SUGARS LIMITED

Registered Office: SCO 49-50, Sector 8-C, Madhya Marg, Chandigarh - 160009
Telephone: (0172) 2540007, 2549217, 2541904, 2779565, Email: info@ranagroup.com
Website: www.ranasugars.com

CIN: L15322CH1991PLC011537 (Rs. in Lakhs)

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter / Six Months ended Sep 30, 2024

PARTICULARS	3 Months ended			6 Months ended		Year ended
	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total Income from Operations (Net)	38,556.80	46,203.92	34,013.27	84,760.72	84,007.60	159,262.59
2. Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	(2,252.35)	290.67	(1,307.47)	(1,961.67)	775.75	3,697.69
3. Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	(2,252.35)	290.67	(1,307.47)	(1,961.67)	775.75	3,697.69
4. Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	(1,478.05)	189.90	(1,459.75)	(1,288.15)	76.78	2,796.73
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,478.05)	189.90	(1,459.75)	(1,288.15)	76.78	2,805.97
6. Equity Share Capital	15,353.95	15,353.95	15,353.95	15,353.95	15,353.95	15,353.95
7. Other Equity	-	-	-	-	-	38,692.70
8. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - Before Exceptional Items						
- Basic	(0.96)	0.12	(0.95)	(0.84)	0.05	1.82
- Diluted	(0.96)	0.12	(0.95)	(0.84)	0.05	1.82
9. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - After Exceptional Items						
- Basic	(0.96)	0.12	(0.95)	(0.84)	0.05	1.82
- Diluted	(0.96)	0.12	(0.95)	(0.84)	0.05	1.82

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Six Months Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Six Months Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as at Company's website www.ranasugars.com.

For Rana Sugars Limited
Sd/-
Rana Veer Pratap Singh
Managing Director
DIN: 00076808

Place: Chandigarh
Date : 14.11.2024

GOKAK TEXTILES LIMITED

CIN : L17116KA2006PLC038839
Registered office: #1, 2nd Floor, 12th Cross, Ideal Homes, Near Jayanna Circle, Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru 560098
Tel No. 080 29744077/78 Website : www.gokaktextiles.com
Email : secretarial@gokaktextiles.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Particulars	CONSOLIDATED (Rs. in Lakhs)		
	Quarter ended 30.09.2024	Six Months ended 30.09.2024	Quarter ended 30.09.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Total income from operations	2,932.72	5,770.96	4,050.82
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(626.53)	(1,100.50)	(336.44)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(626.53)	(1,100.50)	602.51
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(626.53)	(1,100.50)	602.51
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(626.53)	(1,100.50)	602.51
Paid up Equity Share Capital	649.93	649.93	649.93
Basic & Diluted Earning per equity share (of Rs.10/- each)	(10.98)	(18.73)	9.86

Notes:
1) The above information is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024 filed with BSE Limited under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The financial results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
2) Key Standalone Financial Information

Particulars	Quarter ended 30.09.2024	Six Months ended 30.09.2024	Quarter ended 30.09.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Turnover	2622.24	5,381.63	4,059.12
Profit/(Loss) Before Tax & Exceptional Items	(882.25)	(1,395.41)	(632.01)
Profit/(Loss) After Tax & Exceptional Items	(882.25)	(1,395.41)	306.94

3) The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024 are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and Company's website at www.gokaktextiles.com
4) The above financial results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by Board of Directors of the Company at their respective meetings held on November 14, 2024.
5) The figures for the corresponding periods have been regrouped and rearranged wherever necessary, to make them comparable.

For Gokak Textiles Limited
Sd/-
(Gautam V. Kuntakar)
(CEO & MD)
DIN: 09791999

Place: Mumbai
Date: November 14, 2024

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, DIVISION BENCH-I, CHENNAI
COMPANY SCHEME APPLICATION No. CA(CAA)/35(CHE)/2024
Form NO. CAA. 2
(Pursuant to Section 230(3) and rule 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016)
In the matter of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of Sections 230 to Section 232 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamation) Rules, 2016
AND
In the matter of Scheme of Amalgamation of Hari Investments Private Limited with Renaissance Consultancy Services Limited and their respective shareholders (hereinafter referred to as "Scheme")
Renaissance Consultancy Services Limited
a Company Incorporated under the provisions of Companies Act, 2013, having its registered office at Pollachi Road, Malumachampatti, Coimbatore Industrial Estate, Tamil Nadu - 641 021
CIN: U74999TZ2020PLC033286 ...Applicant Company No 2 / Transferee Company

NOTICE AND ADVERTISEMENT FOR THE TRIBUNAL CONVENED MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS AND UNSECURED CREDITORS OF TRANSFEREE COMPANY

NOTICE is hereby given that by an Order dated 8th November, 2024 in the Company Scheme Application No. CA(CAA)/35(CHE)/2024 ("Order"), the Hon'ble National Company Law Tribunal, Division Bench-I, Chennai ("NCLT") has directed the meeting of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Transferee Company be convened for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification the proposed Scheme of Amalgamation of Hari Investments Private Limited with Renaissance Consultancy Services Limited and their respective shareholders ("Scheme") under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). In pursuance of the said order and as directed therein notice is hereby given that the meeting of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Transferee Company will be convened as below

Particulars of meeting	Venue	Date	Time
Equity shareholders	Registered office i.e. Pollachi road, Malumachampatti, Coimbatore Industrial Estate, Tamil Nadu - 641 021	21 December, 2024	11:00 AM (IST)
Unsecured Creditors	Registered office i.e. Pollachi road, Malumachampatti, Coimbatore Industrial Estate, Tamil Nadu - 641 021	21 December, 2024	12:00 PM (IST)

The Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Transferee Company are requested to attend their respective meetings at the time and place mentioned above.
Copies of the Scheme and the statement under section 230 of the Act can be obtained free of charge at the registered office address of the Transferee Company situated at Pollachi road, Malumachampatti, Coimbatore Industrial Estate, Tamil Nadu - 641 021 on any working day except on Saturdays, Sundays and public holidays.
Copies of the notice together with all the documents will be sent to the physical address of the respective Equity Shareholders and Unsecured Creditors via courier.
Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy or through Authorised Representatives, provided that all proxies in the prescribed form and necessary resolutions are deposited at the registered office mentioned above or scanned copies of which are sent via e-mail to the Transferee Company not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy are available at the registered office of the Transferee Company.
The NCLT has appointed Shri Raymond Albyness F. Advocate, as the Chairman and Shri C.A.G.S. Sudhir as scrutiner for the aforesaid meeting. The abovementioned Scheme, if approved at the meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

SD/-
Mr. Praveen Gupta
Authorised Signatory of Transferee Company

GANGES SECURITIES LIMITED

Registered Office : P.O. Hargaon, District Sitapur, Uttar Pradesh - 261 121
Phone (05862) 256220, Fax (05862) 256225, CIN : L74120UP2015PLC069869
Web-site : www.birfa-sugar.com, E-mail : gangessecurities@birfasugar.org

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2024

Sr. No.	Particulars	(₹ in lakhs)					
		Standalone		Consolidated			
	Quarter ended 30.09.2024	Six Months ended 30.09.2024	Quarter ended 30.09.2023	Quarter ended 30.09.2024	Six Months ended 30.09.2023	Quarter ended 30.09.2023	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Total Income from operations	468.61	545.20	770.17	1,515.63	2,287.53	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	406.80	447.63	738.02	891.78	1,048.23	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	406.80	447.63	738.02	891.78	1,048.23	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	304.16	337.82	551.71	722.19	836.27	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,288.21	16,163.30	4,501.57	5,703.30	16,655.88	
6	Equity Share Capital	1,000.37	1,000.37	1,000.37	1,000.37	1,000.37	
7	Other Equity	-	-	-	-	-	
8	Earning per share (of ₹10/- each) (in ₹) : Basic & Diluted	3.04 *	3.38 *	5.51 *	7.22 *	8.36 *	

* Not annualised.

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.birfa-sugar.com".
2. There is no extra ordinary item during the above periods.

For and on behalf of the Board of Directors
Ganges Securities Limited
Urvi Mittal
Managing Director
DIN:02780842

Place: Kolkata
Date : 14 November, 2024

50 years of
opinion that
shapes opinions.



50 Years of Insight

